



HZL/2023-SECY/

BSE Limited P.J. Towers, Dalal Street,

Kind Attn: - General Manager, Dept. of Corporate Services

Scrip Code: 500188

September 22, 2023

National Stock Exchange of (India) Ltd. "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex, Mumbai – 400051

Kind Attn:- Head - Listing & Corporate Communications

Trading Symbol: "HINDZINC"

Dear Sir/Madam,

<u>Sub: - Disclosure under Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (listing Obligations and Disclosure</u> <u>Requirements) Regulations 2015 (Copies of Newspaper Advertisement of the Company)</u>

In compliance with Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisements relating to notice to shareholders (For transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund) of the Company published today i.e. September 22, 2023.

S. No.	Newspaper	Edition and Language	
1	Financial Express	All Editions in English Language	
2	Pratahkal	Udaipur in Hindi Language	

The same is also uploaded on the website of the Company and can be accessed at www.hzlindia.com

Request you to take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For Hindustan Zinc Limited

(Rajendra Pandwal) Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

Hindustan Zinc Limited, Registered Office: Yashad Bhawan, Udaipur–313 004, Rajasthan, INDIA. T. +91 294-6604000-02 www.hzlindia.com CIN: L27204RJ1966PLC001208

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023

15



वंदे भारत का टायल रन आज

नगर

वीडियों



से करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को इस रेलगाड़ी का ट्रायल रन किया जाएगा। यह वदे भारत एक्सप्रेस उदयपुर स्टेशन से प्रात 7 50 बजे रवाना होकर भीलवाडा 9 45 बजे अजमेर 11 40 बजे होते हुए जयपुर दोपहर 1.50 बजे पहुंचेगी। इसी प्रकार लौटते वक्त जयपुर से दोपहर 2.30 बजे रवाना होकर अजमेर 4.25 बजे भीलवाड़ा 5.55 बजे होते हुए उदयपुर रात 8.40 बजे पहुंचेगी।

बाघपुरा की 007 भैंग का सरगना बाइक चोरी में गिरफ्तार

उदयपुर. नगर संवाददाता शहर की हाथीपोल थाना पुलिस ने 4 माह अपद्धः मार्ट विवस्ता । (२८) अभारति के जुराति के जिसके वारी में गिरस्तार किया। आरोपी बाधपुरा में मादड़ी के जंगलों में छिपा था। आरोपी और इसका गिरोह बाइक चोरी और लूटपाद करता था। गिरोह के चार आरोपियों को पुलिस ने मई में गिरफ्तार कर लिया था। थानाधिकारी लीलाराम ने बताया कि जगत निवासी तेजाराम ने मामला दर्ज करवाया कि 28 जनवरी को सुबह 11 बजे उसने एमबी हॉस्पिटल के बहिरंग विभाग के सामने बाइक खड़ी की थी। दूसरे दिन सुबह वापस जाकर देखा तो बाइक गायब थी। बाइक को चोर चुरा ले गया। इस मामले में पुलिस ने 15 मई को बाधपुरा 007 गैंग के बाधपुरा निवासी कन्हैयाँलाल पुत्र वका दामा, संतोष पुत्र फतहलाल, भगवतीलाल पुत्र खेमा मीणा और रमेश पुत्र हरीश अहारी को गिरफ्तार कियाँ था। इनसे 16 बाइक बरामद की थी। इन्होंने गैंग का मुख्य सरगना हरीश पुत्र दामा मीणा को बताया। यह आरोपी चार माह फरार था। इसे पकड़ने के लिए थानाधिकारी के नेतृत्व में एएसआई शंभु सिंह, हेमेंद्र सिंह, कांस्टेबल कमलेश, रमेश, महेंद्र और साइबर सेल के लोकेश रायकवाल की टीम गठित की। टीम को सचना मिली कि आरोपी बाघपुरा में छिपा है। बाघपुरा में मादड़ी के जंगल में दबिश दी और हरीश माँणा को गिरफ्तार किया। आरोपी से अन्य वारदातों के बारे में और चोरी की बाइकों के बारे में पूछताछ कर रही है।



उद्यपुर. नगर संवाददाता | शहर से सटी ग्राम पंचायत बडी में लगातार मवेशियों का शिकार कर रहा एक पैंथर गुरूवार को पिंजरे में कैद हो गया, जिसपर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गांव में पिछले करीब तीन महीने से तेंदए के आंतक से ग्रामीण परेशान थे और आए दिन तेंदुआ मवेशियों का शिकार कर रहा था। इससे पहले 17 अगस्त को एक तेंदुआ उसमें पुंस गया जिसे बाद में दूसरे जंगल में छोड़ा गया। 35 दिन बाद गुरूवार सवेरे ब्रह्मपुरी के पीछे आमली वाला मोहल्ला में लगे पिंजरे में तेंदुआ फंस गया। सुबह 6 बजे उस क्षेत्र से निकले कुछ ग्रामीणों को पिंजरे में तेंदुए के गुराने की आवाज सुनाई दी तो गांव में सूचना की। बाद में वन विभाग की दीम भी मौके पर पहुंची। सहायक वन संरक्षक नरपत सिंह चौहान के साथ बड़ी सरपंच मदन पंड़ित सहायक वनपाल भैरूलाल, वनकर्मी लोगर गमेती सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। टीम ने वहां से तेंदुए को ले गए और दूसरे जंगल में छोड़ा गया। अभी गांव में दो तेंदुए और है।



प्रतिभूतियों, बकाय वेवताओं, थार १३(२) के तहत भेजे गए डिमांड मोटिस और उस ल्त बाय की नई रशि और कब्जे की ब का विचरण चिम्नानुसार दिया गया है

वेय रहि रू. में

ो, गौरव त्रिपाली 965005 तंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड

त्रप लेने वले का नाम और पत सह-उधरकर्ता गरंटीकर्ता ऋण खाता संख्या और ऋण रहि तुरक्षित संपति क विद्यस्य মান মুক্তন চির্বাক 1) शस्म सिंह कालवत युव सीतान ज्ञलवत (आरकती) . लडकूक प्रती शस्म सिंह सह-उधारकरी) जि लियमे : सुंपर स्वय, सांवावेर सेत्रेले, सेलवड, सरस्थान-310 सेत्रे में 1 अस-ब्राह्म स्वरूप मालवड, व्यक्तवन्त्रतातात .XBHL02918-19000443 इति की देशकः ३१ मर्च २०१ । स्पये ३,१८,२७४/-

वान : गुरूग्राम, हरिवाणा नांक : 22.09.2023 प्राधिकृत अधिकारी प्रातःकाल

तंत्र-मंत्र के नाम से पैसा दुगुना करने वाले तांत्रिक को पीड़ित ने पुलिस से पकड़वाया 2.80 लाख ठग कर भागने के फिराक में था, ग्रहशांति के नाम पर किया था हवन

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर की बङ्गांव थाना पुलिस ने तंत्र-मंत्र के माध्यम से गृहशांति के नाम पर पैसों को दगना करने व एक पीडित से 2.80 लाख उउ रूपए दगकर भागने का प्रयास कर रहे एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक बना यह आरोपी फेसबुक के माध्यम से पीडित के सम्पर्क

में आया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे दो दिन के रिमाण्ड पर पाप्त किया है। थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित ने बताँया कि किशन सुथार पुत्र एकलिंग सुथार निवासी बडी ने मामला

दुज करवाया कि उसके घर में काफी दिनो से अशांति चल रही थी तो उसका साला कमल पुत्र दाड़म चन्द सुथार निवासी मंगवास ने उसको बताया कि उसकी जानकारी में एक बाबाजी है जो तांत्रिक विद्या जानते है जो इन्दौर के रहने वाले है और उदयपुर आए हुए है। जिस पर उसने उसके साले को बाबाजी से मिलाने की बात कही तो बाबाजी 18 सितम्बर को उसके घर पर कार लेकर आए और तांत्रिक विद्या से घर में शांति कर देने व पैसे दुगुने करने का आश्वासन दिया। बाबाजी ने उसे पजा सामग्री लाने के लिए

भेजा तो वह बाजार से पूजा सामग्री व मिट्री के मदके लेकर आया। बाबाजी ने अपना नाम सरेन्द्र सैनी उर्फ गणेश नाथ

उदयपुर. नगर संवादवाता | बड़गांव थाना क्षेत्र में एक महिला ने एक

नकद और 2.43 लाख रुपए के सोने के जेवर हड़पने का मामल

अनसार एक महिला ने मामला दर्ज

करवाया कि उसके घर में अशांति

चल रही थी। इसको लेकर वह

पुलिस चौकी रोड बड़गांव निवासी

मोहित उपाध्याय से मिली। मोहित

ने उसे गृह शांति के लिए पूजा–पाठ

महिला ने उसे दिए। पूजा-पाठ हो जाने के बाद भी घर में शांति नहीं हुई तो मोहित ने उससे घर में रखे जेवर से दोष उतारने के लिए पजा

पुरणमल सैनी निवासी मेदासरवास डीडवाना नागौर हाल इंदौर होना बताया। बाबाजी ने पूजा शुरू करने से उसे उसकी पत्नी हेमलता संथार साला कमल एवं साढू रमेश को भी साथ में बिठाया। पूजा शुरू करते समय बाबाजी ने कहा कि 4 लाख रूपये की व्यवस्था करो उन रूपयों को इस रूपए पूजा में रखने

पड़ेंगे एवं पूजा के बाद यह राशि दगुनी हो जाएगी एवं यह पैसा उन्हीं का रहेगा। जिस पर उसने मेरे साले कमल व साढ रमेश से रूपये उधार मांगे तो कमल ने उसे 1.30 लाख रूपए, साढू रमेश सुथार से 1.50 लाख रूपए उधार लिए।

बाबा ने सभी को एक कमरे में बैठा कर पजा पारम्भ की और 2.80 लाख रूपए एक मटके में रखवाए। कुछ समय पूजा करने के बाद चारो को एक साथ 5 मिनट के लिये बाहर भेजा उसके बाद बाबाजी ने कहा कि इन मटको को कोई भी नहीं छुएगा और कमरा बंद कर दिया। बुधवार को बाबा उदयपुर शहर घूमने के लिए निकले।

इस दौरान किसी पडोसी ने बाबा को एक बैंक में देख लिया और उसे फोन कर बता दिया। इस पर जब बाबा पुन: बैंक से घर पर आया तो उससे पछा कि वह बैंक क्यों गया तो उसने नहीं बताया। इस पर शंका होने पर परिजनों ने पूजा में रखे 2.80 लाख रूपए वापस मांगे तो बाबा ने

कोई जवाब नहीं दिया और पुन: घर से जाने की जल्दी करते हुए सामान समेदने लगे। यह देखकर शंका होने पर परिजनों ने मटके में रखवाए पैसो को देखा तो यह राशि मदके में नहीं थी, जिस पर बाबाजी को रूपये वापिस देने के लिए कहा तो बाबा आनाकानी करने लगा। इस पर पीडित ने बाबा को पकडकर घर पर बैठा दिया और पुलिस को सूचना दी।


सचना पर थानाधिकारी के नेतत्व मे एएसआई रोशनसिंह, हैड कांस्टेबल खुमाण सिंह, कांस्टेबल तपेन्द्र सिंह, सुनील, डालाराम, रामकुमार की टीम ने दंबिश दी और आरोपी बाबा सुरेन्द्र सैनी उर्फ गणेश नाथ पुत्र पूरणमल सैनी निवासी मेदासरवास डीडवाना नागौर हाल इंदौर को गिरफ्तार किया। आरोपी बाबा ने पछताछ में बताया कि उसने पजा के दौरान पीड़ित किशन सुथार सहित चारों को घर से बाहर निकाल दिया था तो इस दौरान 2.80 लाख रूपए उसने मटके से निकालकर अपने पास रख लिए। बाद में दसरे दिन इन पैसों को बैंक में जाकर अपने खाते में जमा करवा दिए। पुलिस पूछताछ में इस बाबा के खिलाफ डीडवाना, हरियाणा में भी इसी तरह के प्रकरण सामने आ रहे है। पुलिस ने बाबा को न्यायालय में पेश कियाँ जहां से दो दिन के रिमाण्ड पर प्राप्त किया है। इधर पलिस ने बाबा ने जिस खाते में पैसा जमा करवाया है, उस खाते को फ्रिज करवा दिया है।

में देरी से लोगों में आक्रोश

उदयपुर. नगर संवादवाता | देबारी में पियुपी (पब्लिक अंडर पास) पियुपी (पब्लिक अंडर पास) निर्माण की मांग को लेकर जारी जन आंदोलन गुरुवार को फिर भड़क गया। प्रशासन जल्द से जल्द देवारी काया वाईपास का उद्घाटन करवाने की फिराक में है और इसके लिए चित्तौड हाइवे को काया बाईपास ग्रेट सेपरेट सर्कल पर रैंप वन के जरिए कनेक्ट करना है लेकिन स्थानीय पब्लिक ने यहां काम रूकवा रखा है। पब्लिक दिल्ली में अदकी पियपी को फाइल जल्द स्वीकृत कर वर्क ऑर्डर जारी करने की मांग पर अड़ी है और तभी काम करने की चेतावनी दे रखी है। गुरूवार को एनएचएआई और निर्माण कंपनी अधिकारी दल बल के साथ रैंप वन पर काम शुरू करने पहुंचे ग्रामीणों को इसकी भनक लगते ही देबारी उप सरपंच चन्दन सिंह तक हेडक्वार्टर में चल रही यह फाइल पर स्वीकृति देवड़ा, जिंक उप सरपंच दुल्हे सिंह देवड़ा के नेतृत्व में कई मिल जाती काया चिनौड को जोड़ने वाले रेंप वन का काम ग्रामीण रैंप वन पर पहुंच गए और काम रुकवा दिया। इस दौरान नहीं होने देंगे। मौके पर दौलत सिंह, नारायण सिंह, जगदीश चौधरी, उदय सिंह, गिर्वा तहसीलदार राम प्रसाद. कुराबड़ नायब तहसीलदार, देबारी अर्जुन लौहार, राय सिंह, पंकज वैष्णव, जय सिंह समेत आरआई देवराज सिंह, पटवारी

हादसे में दो की मौत

उदयपुर. नगर संवाददाता | संभाग के राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र में सेलाया एमपी निवासी हाल तलाई केलवा निवासी सालिगराम (22) पुत्र हरिशंकर दईया गत चार फरवरी को मोटरसाइकिल पर घरेलू सामान लेकर लौटते समय तलाई रोड पर जेसीबी के हुड की टक्कर से घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं रेलमगरा थाना क्षेत्र में रेलमगरा निवासी अल्लाह नूर (60) पुत्र जमाल गंगापुर से रेलमगरा आते समय भेंस की टक्कर से घायल की गुरुवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।



उदयपुर (वि)। प्रख्यात हनुमान भक्त धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम अक्टूबर में उदयपुर आएंगे। वे यहां बलीचा स्थित बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में चल रहे सनातनी चातुर्मास में शामिल होकर दिगम्बर खुशाल भारती महाराज से आशीर्वाद

लेंगे। मीडिया संयोजक मनोज जोशी ने बताया कि निरंजनी अखाड़े के मणि मन मुकुंद दिगम्बर खुशाल भारती महाराज के सात्रिध्य में महाराज के सात्रिध्य में आगामी दिनों में सनातनी चातुर्मास में विविध अनुष्ठान होने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम

के धीरेंद्र शास्त्री अक्टबर के पहले पखवाडे में उदयपुर आएंगे। उनका पूरे एक दिन तक यहां रहने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वे यहां धर्मसभा भी करेंगे। अभी सनातनी चातुर्मास में गजानन महाराज की आराधना चल रही है। आगामी 25 सितंबर तंत्र कोलाचार्य आचार्य माही बाबा झारखंड से आ रहे

हैं। इसी तरह, 27 सितंबर को डीजे किंग भैरूलात बारेगामा की भजन संध्या होगी। 9 अक्टूबर को भजन संध्या होगी जिसे प्रकाश माली, भगत सुथार, नरेश प्रजापत अपने भक्ति गीतों से सजाएंगे। 13 अक्टूबर को दस महाविद्या तंत्र कोलाचार्य कालीचरण महाराज आएंगे। इसके बाद, 22 अवदूबर को काशी सुमेरू पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य नरेंद्रनानंद सरस्वती का उदयपुर में मंगल नगर प्रवेश होगा। नवम्बर में भी विविधि अनुष्टान और प्रख्यात संत-महंतों का आगमन होगा। 22 नवम्बर को शंकराचार्य निश्चलानंद आएंगे। 23–24 नवम्बर को पंचदशनाम जूना, आवाहन व निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर पधारेंगे। पंचदशनाम जूना अखाड़ों के आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज व निरंजनी पंचायती अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्व कैलाशानंद महाराज सनातनी चातुर्मास में पधारेंगे। 23 व 24 नवम्बर को उस्मान मीर, गीता रेबारी, सरेश गहलोत भक्ति गीतों की सरिता बहाएंगे।



देबारी काया

बाईपास के

उद्घाटन पर संकट

देबारी में पियुपी के वर्क ऑर्डर प्रशासन, एनएचएआई के अधिकारियो के सामने उखडी जनता



कई ग्रामीण जमे रहे। ग्रामीणो ने कहा कि बिना पियुपी स्वीकृत होने तक जरा काम भी रैंप वन पर

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के बापू बाजार में उपयुद्ध, ब्लाट सवाबवाता। शहर के सुरवपालय थाना क्षेत्र के बायूं आवार स लगे गणेश पांडल में सा रहे युवल का एक वसाम मोबाइल चुरा ले गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के अनुसार बापू बाजार निवासी बैभव पुत्र योगेश अग्रवाल बुधवार को उदयपुर चा राजा गणेश पाडल में सा रहे थे। उन्होंने अपना मोबाइल चावे पर लगाकर तकिये के नोचे रखा था। सुबह करीब 6 बजे एक युवक आया और पांडाल के चक्कर लगाने लगा। इसके बाद वह पांडाला में घुँसा और तकिये के नीचे से मोबाइल चुरा कर फरार हो गया। सुबह जब वैभव उठे तो उन्हें फोन नहीं मिला। उन्होंने पांडाल के सामने ढुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चैक की तो उसमें एक यवक मोबाइल चोरी कर पांडाल से निकलता दिखा।

(Centre of Excelle Jhalana Institution ইৰলাইত : www.exc	nce for R nal Area.	ATE GANGANAGAR SU(levenue Research & Analysis) Bhawan, Jaipur – 392004 than.govJn ई–गेतः dgmpi	Plot no. 2, Near Aranya Bhawan, CIN:U15421RJ1945SGC000285 urchase.rsgsm@rajsathan.gov.in
E bida ara		E-BID SHORT NOTICE for procurement of below item	n or Sonicor:
UBN	NIB No.	Particulars	Last Date of Submission Of Bids
		Bids for caramel and essence	Till 26.09.2023 at 06.00 p.m.
GSM2324GLRC00078	24		

रक्ष जा सकत है। बिंड संबंधा समस्त आग्नम सूचनाएं कवल वबसाइट पर उपर बेडर्स को सलाह दी जाती है कि उक्त वेबसाईट निरन्तर रूप से विजिट की जावें

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड

और संरक्षण निधि प्र 1, 2013 की धारा 12 दिया जाता है और तारी किए जाने ⁹

ा ववरण भा शामल ह। आइदयाएक बसाइट <u>www.hztindia.com</u> पर वं ४ दावा गही किया है। है कि वित्त वर्ष 2016–17 (अंतरिंग १ किए गए पेक के साथ हस्ताप्तरित हा गया हो। यदि आप शेमरों के भी

लाइंट मास्टर सूची की स्व-विवीय विभाग को श्री⁹

रेख जा सकता है कि उपलेखा उजराबाला का अनुमालन करने का तार, कमन अनुवालन अनुसार दाजा ते कि प्राप्त प्रेरंश की स्वार्थनात करने के लिख अत्यास कर कार आपनी। प्राप्त का सेवले को करने के स्व: संस्तीका मेरायताल <u>www.kegf.apv.in</u>, पर पारावस प्रार्थ आईप्रियर 6 में जोतन क्रिकेश स्वार्थ के एक सीकित प्रति ने अपत कर प्रदेश्त्रेणका मोर्कित संहितियर का ने कार आवश्यक दलाकोर्जा के साथ करनी के नेद्राल सकीवार की साधानित भों में कुछ याता कर सकता है ्रवास न किए गए लामांश / शेवर का दावा करने के लिए अधिक जा-एमर्युखा चले घर कांगनी के शक्तिया विमाग से संपर्क कर सार्व्या अधिकार्यकर्यकर co in पर संपर्क कर सकते हैं। तरी / अनुरोध के लिए. सकते हैं या इंगेल गक मंडल के आदेश से तान जिंक लिमिटेड के लिए स्थान : उदयपुर दिनांक: 21 सितम्बर, 2023

सोशल मीडिया हीरो अभियान



क्या आप उनमें से एक बनना चाहते हैं ?

दिनांक २४ सितंबर को उदयपुर-जयपुर उद्घाटन स्पेशल में आकर्षक वीडियो केप्चर करके @NWRailways टैग कर #VandeBharat एवं #StationName (उदाहरण स्वरूप #Jaipur, #Udaipur) के साथ पोस्ट करें ।

चयन के मापदंड 1. अपने रेलवे स्टेशन के नाम के साथ बंदे भारत पर आपके सर्वश्रेष्ठ वीडियो / फोटोज को साझा करें। 2. वंदे भारत पर सोशल मीडिया पर अधिकतम पोस्ट करें और जीतने का मौका पाएं! 3. प्रतियोगिता २४ घंटे के लिए खुली रहेगी एवं बेहतर कंटेंट, शेयर एवं लाइक्स पर चयन की जाएगी। अपने शहर और बंदे भारत के प्रति अपना प्यार दिखाएं और

Follow us at 🛐 🗙 🖉 /NWRailways 💿 NWRailways 🌐 www.nwr.indianrailways.gov.in

आशीष, प्रतापनगर थाने का जाब्ता मौके पर पहुंच गया। तहसीलदार ने माहौल बिगड़ते देख एनएचएआई के पं कुलदीप सोनगरा को मौके ਧੀਤੀ नहीं होने देंगे। पुरावाने जागेल का नाक पर बुलाया, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कह दिया की रोजाना हादसे हो रहे है। पीयूपी (∞) निर्माण बहुत जरूरी है जब

एनएचएआई

दिल्ली

मा की डाट से आहत छात्रा

10 मंजिल ऊपर से कूदी

मौके पर ही मौत, स्कूल नहीं जाने पर मां ने लगाई थी डांट

उदयपुर. नगर संवादवाता | शहर के सुखेर थाना क्षेत्र के स्कूल नहीं जाने पर मां द्वारा डांटने से आहत 10वीं में पढने वाली एक किशोरी ने अपार्टमेंट की

10 मंजिला छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुकसार नंदनी (17) पुत्री स्व. रमेश सिसोदिया निवासी वैदही अपार्टमेंट सुखेर 10वीं कक्षा

में पढ़ रही थी। वह अपनी मां किरण सिसोदिया और छोटे भाई के साथ रहती थी। पिछले 3–4 दिनों से हो रही बारिश के चलते वह दो दिन से

उदयपुर , शुक्रवार २२ सितम्बर, २०२३ 3